

बालिका विद्यापीठ लखीसराय (811311)

वर्ग - द्वितीय दिनांक - 08/07/2020

विषय - हिंदी

N.C.E.R.T पर आधारित

पाठ - 3 (अनोखा पुरस्कार)

सुप्रभात बच्चों

पिछली कक्षा में आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ा । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अध्ययन सामग्री को पूरे मनोयोग से पढ़ेंगे । आज की कक्षा में आपको "अनोखा पुरस्कार" कहानी पढ़ना है । जो इस प्रकार है -

भव्या को दौड़ना बहुत पसंद था । जब भी दौड़ की कोई प्रतियोगिता होती तो भव्या उसमें भाग जरूर लेती । उसे हमेशा प्रथम पुरस्कार मिलता था । उसके माता-पिता , पड़ोसी अध्यापक - अध्यापिकाएं सभी उस पर गर्व करते थे । भव्य दौड़ में जितनी अच्छी थी , उतना ही अच्छा उसका स्वभाव भी था । सबकी सहायता करना उसे अच्छा लगता था । आज विद्यालय में दौड़ प्रतियोगिता होनी थी । भव्या पिछले दो

महीने से पढ़ने के साथ-साथ सुबह - शाम दौड़ लगाकर इस प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी। दौड़ शुरू हुई थी कि अचानक भव्या के साथ दौड़ रही उसकी सहेली नेहा को ठोकर लगी और वह जोर से नीचे गिर गई। उसके घुटने से खून बहने लगा। भव्या रुक गई। वह भागकर नेहा के पास गई। उसे सहारा देकर उठाया और धीरे-धीरे प्राथमिक चिकित्सा कक्ष में ले गई। वहां नेहा की महरम - पट्टी की गई।

जब तक भव्या खेल के मैदान में वापस आई, दौर खत्म हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि नेहा की मदद करने के लिए खुश हो। या दौड़ हार जाने के लिए दुखी हो। ऐसा पहली बार हुआ था कि भव्य ने किसी दौड़ में हिस्सा लिया हो और वह जीती ना हो। वह मायूस होकर मैदान में ही खड़ी हो गई। तभी खेल प्रशिक्षक के साथ प्रधानाचार्य भी भव्या के पास आ पहुंचे और उसे जीत की बधाई देने लगे। भव्या कुछ समझी नहीं। तब खेल प्रशिक्षक ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया कि आज के मुख्य अतिथि ने दौड़ के दो विजेता घोषित किए हैं पहली दौड़ में जीतने वाली लड़की और दूसरी भव्य, जिसने नेहा की सहायता करके मानवता की दौड़ जीती थी। इस जीत का पुरस्कार भव्या के लिए अनोखा पुरस्कार था।

हमने सीखा - हमें मुसीबत के समय अपना स्वार्थ भूल कर दूसरों की मदद करनी चाहिए ।

गृहकार्य :-

कहानी को पूरे मनोयोग से पढ़ें एवं अपने माता पिता को सुनाएं । और शब्दार्थ लिखे तथा याद करें ।

1. शब्दार्थ लिखें -

पुरस्कार = इनाम

प्राथमिक चिकित्सा कक्ष = जहां शुरुआती इलाज होता है

मायूस = दुखी

प्रशिक्षक = सिखाने वाला

अतिथि = मेहमान

विजेता = जीतने वाला

ज्योति

